

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2023—ज्येष्ठ 5, शक 1945

## भाग 3 ( 1 )

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्री राम शर्मा आत्मज श्री साधूराम शर्मा अंकित है मेरे शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम राम चरण शर्मा पुत्र आत्मज स्व. श्री साधूराम शर्मा अंकित है उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे श्री राम शर्मा आत्मज स्व. श्री साधू राम शर्मा के नाम जाना एवं पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी उक्त नाम से दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(राम चरण शर्मा)

नया नाम  
(श्री राम शर्मा)  
पिता स्व. श्री साधूराम शर्मा  
पता—1075, गेंहूखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल.

(G-883)

### नाम परिवर्तन

मैं, सूचनादाता श्रीमती श्याम कान्ती सिंह पत्नी श्री रमेश चन्द्र सिंह चंदेल, निवासी-ए 23, फार्चून ग्लोरी एक्सटेंशन, बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) यह सूचना सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित करती हूँ कि मैंने पूर्व में एस.बी.आई. के 530 शेर फोलियो नंबर 00798684 के माध्यम से क्रय किये थे जिसके संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवश श्याम कान्ती चन्देल दर्ज हो गया था, जो कि मेरा पुराना नाम है, जबकि मेरा दस्तावेजों एवं वर्तमान सही नाम श्याम कान्ती सिंह है तथा यही नाम वर्तमान में दस्तावेजों कार्यों हेतु मेरे द्वारा प्रयुक्त किया जाता है तथा भविष्य में भी यही नाम मेरे द्वारा प्रयुक्त किया जावेगा, इसलिये मुझे मेरे पुराने नाम श्याम कान्ती चन्देल के स्थान पर वर्तमान नाम श्याम कान्ती सिंह के नाम से जाना जावे, अतः सूचित हो.

पुराना नाम  
(श्याम कान्ती चन्देल)

(G-884)

नया नाम  
(श्याम कान्ती सिंह)

पत्नी श्री रमेश चन्द्र सिंह चंदेल  
निवासी-बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, अशफाक बेग पिता स्व. श्री एम. के. बेग निवासी-वार्ड नम्बर 26, जुमेराती, नर्मदापुरम्, तहसील जिला नर्मदापुरम् शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री कु. आफिया नाजमी ने वर्ष 2020-21 में कक्षा दसवीं रोल नम्बर 1913669 की परीक्षा सेमेस्टर हायर सेकेण्डरी स्कूल नर्मदापुरम् से दी थी. जिसमें वह उत्तीर्ण हुई थी जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्ध है. मेरी पुत्री की प्राप्त मूल अंकसूची में पिता का नाम मिर्जा असफाक बेग एवं माता का नाम श्रीमती निखत अफरोज दर्ज है. जिसे संशोधित कर उसके स्थान पर पिता का वास्तविक नाम अशफाक बेग (ASHFAQUE BAIG) एवं माताजी का वास्तविक सही नाम निखत बेग (NIKHAT BAIG) दर्ज कर इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम  
पिता का नाम (MIRZA ASHFAQUE BAIG)  
माता का नाम (NIKHAT AFROZ)

(G-885)

नया नाम  
पिता का नाम (ASHFAQUE BAIG)  
माता का नाम (NIKHAT BAIG)

### CHANGE OF NAME

I, Army JC-826024H Rank Nb/Subedar Name Kailash Chandra resident of 15CC, Dwarikapuri, Post Sudama Nagar, Tehsil & Dist. Indore (M.P.) Pin 452009 have changed my name from Kailash Chandra to Kailash Chandra Bhawsar.

Old Name  
(Kailash Chandra)

(G-886)

New Name  
(Kailash Chandra Bhawsar)  
Resident of 15CC, Dwarikapuri,  
Post Sudama Nagar, Tehsil & Dist. Indore (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, अंकित कुमार उईके आत्मज श्री राम कुमार उईके निवासी मकान नं. एच-56, पुर्वाचल फेस-2, खजरी कलां रोड, भोपाल (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम अंकित कुमार उईके (ANKIT KUMAR UIKEY) आत्मज राम कुमार उईके (RAMKUMAR UIKEY) है जो कि सही एवं सत्य है. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे एवं मेरे पिताजी का उपनाम विकेय (Vikey) त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः भविष्य में मुझे अंकित कुमार उईके (ANKIT KUMAR UIKEY) एवं मेरे पिताजी को राम कुमार उईके (RAMKUMAR UIKEY) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(ANKIT KUMAR VIKEY)  
S/o. RAMKUMAR VIKEY  
(G-887)

नया नाम  
(ANKIT KUMAR UIKEY)  
S/o. RAMKUMAR UIKEY  
निवासी-मकान नं. एच-56, पूर्वाचल फेस-2,  
खजरी कलां रोड, भोपाल (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, नबाबाई पति बाबुराव निले पुत्री श्री मकडू मोरे निवासी वार्ड क्रमांक 22, आलमगंज मालीवाडा, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे माता पिता ने बचपन में मेरा नाम प्रेमभाव वश नबाबाई रखा था तथा मेरे पैतृक कृषि संपत्तियों में भी मेरे माता पिता द्वारा प्रेमभाव पूर्वक रखे गये नाम नबाबाई पति बाबुराव अंकित चला आ रहा है परंतु मेरा वास्तविक नाम सुशिलाबाई पति बाबुराव निले है तथा मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में भी सुशिलाबाई पति बाबुराव निले का उल्लेख है इसलिए मेरे प्रेमभाव पूर्वक रखे गये नाम नबाबाई पति बाबुराव के स्थान पर मुझे मेरे वास्तविक नाम सुशिलाबाई पति बाबुराव निले के नाम से ही भविष्य में मुझे जाना व पहचाना जावे तथा भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों के लिए मेरे पूर्व नाम नबाबाई के स्थान पर वास्तविक नवीन नाम सुशिलाबाई पति बाबुराव निले के रूप में पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम  
(नबाबाई)  
(G-888)

नया नाम  
(सुशिलाबाई)  
पति बाबुराव निले  
निवासी-वार्ड क्र. 22, आलमगंज मालीवाडा  
बुरहानपुर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम पूर्व में नूर मुस्तफा पिता अब्दुल गफुर लिखा व पढ़ा जाता था. तथा मेरा प्रचलित नाम मुस्तफा पिता अब्दुल गफूर होने के कारण लोग मुझे मुस्तफा पिता अब्दुल गफूर के नाम से जानते व पहचानते हैं. जबकि वास्तविकता में मेरा नाम नूर मुस्तफा पिता अब्दुल गफुर था प्रचलित नाम मुस्तफा पिता अब्दुल गफुर होने के कारण मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम मुस्तफा पिता अब्दुल गफुर अंकित हो गया है. जिसे स्पष्टता हेतु व निजी कारणों से नाम बदलकर मुस्तफा पिता अब्दुल गफुर कर लिया है. जिसके बाद अब मुझे व भविष्य में अपने परिवर्तित नाम मुस्तफा पिता अब्दुल गफुर से ही जाना व पहचाना जाए. मेरे द्वारा परिवर्तित नाम मुस्तफा पिता अब्दुल गफुर ही लिखा पढ़ा व उपयोग किया जावे.

पुराना नाम  
(नूर मुस्तफा)  
(G-889)

नया नाम  
(मुस्तफा)  
पिता अब्दुल गफुर  
निवासी-242, प्रकाश का बगीचा, जूनी, इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, ललिता चौधरी उम्र 31 वर्ष पत्नी श्री विनय आर्य निवासी हाल मुकाम बठिया खुर्द, पोस्ट सगमनिया, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) की होकर शपथ पूर्व कथन करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ललिता आर्य एवं मेरा निवास स्थान का पता जिगनहट नईबस्ती तहसील उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) लिखा हुआ है. मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम ललिता चौधरी निवास स्थान का पता बठिया खुर्द, पोस्ट सगमनिया, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) लिखा हुआ है जो कि सही व सत्य है. यह कि मेरा सही नाम ललिता चौधरी एवं निवास स्थान का पता बठियाखुर्द, पोस्ट सगमनिया, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) पढ़ा, लिखा व दर्ज किया जाय एवं मुझे इसी नाम व पता से जाना-पहचाना जाय.

पुराना नाम  
(ललिता आर्य)

नया नाम  
(ललिता चौधरी)  
पत्नी श्री विनय आर्य  
निवासी-बठिया खुर्द, पोस्ट सगमनिया,  
तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.).

(G-890)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, भारत सांगते पिता बाबूलाल सांगते, आयु वयस्क निवासी-243, देव नगर ऐच कालोनी, इंदौर (म.प्र.). यह कि मेरी आठवीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम भारत शांते है जो कि गलत है जबकी मेरे आधार कार्ड में भी मेरा नाम भारत सांगते दर्ज है। अतः मेरा वास्तविक नाम भारत सांगते है जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे भारत सांगते के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(भारत शांते)

नया नाम  
(भारत सांगते)  
पिता बाबूलाल सांगते  
निवासी-243, देवनगर, ऐच कालोनी,  
इंदौर (म.प्र.).

(G-891)

### नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र शिवांश ओझा वेथानी कान्चेंट स्कूल, इंडस टाउन, भोपाल, मध्यप्रदेश में दाखिले के समय कक्षा 1 से 2 तक मार्कशीट में शिवांश ओझा लिखा गया था मेरे पुत्र का नाम अंश झा था भविष्य में शिवांश ओझा के नाम से जाना जाए.

भवदीय  
(सन्तोष कुमार ओझा)

(G-892)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नारायण सिंह जाटव पुत्र श्री अंगद सिंह जाटव मेरा नाम शासकीय अभिलेखों एवं अशासकीय अभिलेखों में एवं भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी नं. 203411320 है. जिसमें मेरा नाम नरेन्द्र सिंह अपोरिया एवं नरेन्द्र सिंह जाटव अंकित है तथा मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता में मेरा नाम नारायण सिंह जाटव अंकित तथा मेरे वोटर कार्ड में नरेन्द्र सिंह जाटव है.

यह है कि नरेन्द्र सिंह अपोरिया, नरेन्द्र सिंह जाटव, नारायण सिंह जाटव उक्त तीनों नाम मेरे ही है मुझे नारायण सिंह जाटव नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम  
(नरेन्द्र सिंह अपोरिया)  
नरेन्द्र सिंह जाटव पुत्र अंगद सिंह जाटव

(G-893)

नया नाम  
(नारायण सिंह जाटव)  
पुत्र अंगद सिंह जाटव  
कृष्णा नगर पहाड़िया, मोतीझील,  
पुरानी छावनी, ग्वालियर.

## नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, राजी एलिजाबेथ थामस Raji Elizabeth Thomas एवं राजी बायजु Raji Byju पत्नी बायजु पी मैथ्यु Byju P Mathew, मेरा विवाह श्री बायजु पी मैथ्यु Byju P Mathew के साथ हुआ था. विवाह के पश्चात मेरे पुत्र इथन बायजु मैथ्यु Ethan Byju Mathew एवं आल्ड्रिन बायजु मैथ्यु Aldrin Byju Mathew पिता बायजु पी मैथ्यु Byju P Mathew के जन्म के समय जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम राजी बायजु Raji Byju लिखा गया है जो कि विवाह पश्चात मेरे पति के नाम के साथ जोड़कर लिखा गया था.

पुराना नाम  
(राजी बायजु)  
Raji Byju W/o. Byju P Mathew

(G-894)

नया नाम  
(राजी एलिजाबेथ थामस)  
Raji Elizabeth Thomas  
W/o. Byju P Mathew  
Add-BM-147, Nerhru Nagar, Bhopal.

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम Mohammed Sabir Siddiqui S/o Jeevan Khan है, जबकि मेरी सेवा पुस्तिका में मेरे नाम की स्पेलिंग Mohammed Sabir J. Siddique S/o Jeevan Khan Siddique दर्ज हो गई है जो कि त्रुटिपूर्ण है. भविष्य में मेरे नाम की सही स्पेलिंग Mohammed Sabir Siddiqui S/o Jeevan Khan को समस्त दस्तावेजों में पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(Mohammed Sabir J. Siddique)  
S/o Jeevan Khan Siddiuge

(G-895)

नया नाम  
(Mohammed Sabir Siddiqui)  
S/o. Jeevan Khan  
पता-105, सत्यम अपार्टमेंट, ईगले की गोठ,  
लक्कड़खना, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश सुनीता तिवारी दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम सुनीता शर्मा पत्नी हरी शंकर तिवारी दर्ज है, तथा मेरी पत्नी के आधार कार्ड आदि दस्तावेज में उनका नाम सुनीता शर्मा पत्नी हरी शंकर तिवारी ही दर्ज है. मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम सुनीता शर्मा पत्नी हरी शंकर तिवारी पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रेषक

(हरी शंकर तिवारी)

पता-03, न्यू गायत्री नगर, नियर ब्रिज,  
लोहामण्डी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-896)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मेसर्स श्री राधे कंस्ट्रक्शन मुख्यालय ग्राम वीरपुरा, पोस्ट पहाड़ी बर्जग, तहसील पेलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में से श्रीमति प्रतिमा यादव पत्नि श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सेवामुक्त हो गई हैं. इनके स्थान पर श्री जयहिंद सिंह यादव तनय स्व. श्री प्रहलाद सिंह यादव निवासी 137, ग्राम वीरपुरा, पोस्ट पहाड़ी बर्जग, तहसील पेलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) भागीदार हो गये हैं.

उपरोक्त सभी परिवर्तन दिनांक 8-12-2022 से लागू माने जायेंगे.

मेसर्स श्री राधे कंस्ट्रक्शन  
भागीदार

(G-897)

### नाम परिवर्तन

मेरी रेल सेवा पुस्तिका में मेरा नाम PRITISH R. BIWALKAR अंकित है. परन्तु मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम PRITISH BIWALKAR अंकित है. अतः भविष्य में मुझे PRITISH BIWALKAR के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम

(PRITISH R. BIWALKAR)

(प्रितीश आर. बिवलकर)

नया नाम

(PRITISH BIWALKAR)

(प्रितीश बिवलकर)

पता-फ्लैट नं. टी-2, प्लॉट नं. 42,  
आयुष टॉवर, गोविन्द गार्डन,  
गोविन्दपुरा, भोपाल.

(G-898)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओ फिश प्रोडक्सन, सी 6, पिकनिक रेस्टोरेंट के पास, डिपो स्कवेयर, हुजूर, भोपाल, जिला-भोपाल पर स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0144/16 एवं दिनांक 4-8-2016 है. जिसमें दिनांक 07-02-2023 को भागीदार श्री नासिर खान पुत्र श्री मसूक खान, नि. मकान नं. 17/1, ढेरपुर, कमला पार्क के पास, भोपाल स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 07-02-2023 को श्रीमती उषा गोयल पत्नी श्री नि.सी 235, गोल्फ व्यू अपार्टमेंट, साकेत, मालवीय नगर, भोपाल भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं,

मेसर्स ओ फिश प्रोडक्सन  
(अरविन्द दंडोतिया)

भागीदार

सी 6, पिकनिक रेस्टोरेंट के पास, डिपो स्कवेयर,  
हुजूर, भोपाल.

(G-899)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में मेघा मिनरल (M/s. MEGHA MINERALS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. इस फर्म से दिनांक 1-1-2022 से एक भागीदार (1) श्री नितिन पिता विनायक पाटिल, निवासी-गुरुकृपा सोसायटी, अम्बेडकर नगर, त्रिशारन चौक, कुन्जीलाल पेठ, रामेश्वरी रोड, नागपुर तह. एवं जिला नागपुर (महा.) निकल रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1-1-2022 से संशोधन उपरांत तीन साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 278, विलेज लोहनी, सौसर, तह. सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) स्थित है।

M/s. MEGHA MINERALS

(उदय कुमार)

पार्टनर.

(G-900)

**CHANGE OF NAME**

This is to inform Publicly that, I KHANDELWAL NAMRATA NIRANJAN W/o. VIKRAM SINGH CHAUHAN, resident of 99, B NAYA GAON HILLS, JABALPUR (M.P.), do hereby solemnly affirm and declare as under I, state that My name was KHANDELWAL NAMRATA NIRANJAN in my Government service records, AADHAR CARD, NAMRATA KHANDELWAL in my Driving license, NAMRATA NIRANJAN KHANDELWAL in my PAN CARD in my educational, government documents and other concern documents before marriage. After my marriage with VIKRAM SINGH CHAUHAN, I have changed my name to NAMRATA CHAUHAN. My Correct Name is NAMRATA CHAUHAN, which is written in my other government Documents like Samgara ID, Passport. I am Changing the Name to NAMRATA CHAUHAN in my Government service Records, School, Higher Education Documents, Government and other concern records.

Henceforth, From this date My Name NAMRATA CHAUHAN, should be read, write and recorded in my Educational Documents Records Government Service and all other concern document in future.

Old Name  
(KHANDELWAL NAMRATA NIRANJAN)  
(G-901)

New Name  
(NAMRATA CHAUHAN)

नाम परिवर्तन

महेंद्र सोनी आत्मज श्री रमेश चन्द्र सोनी, आयु ब्यस्क निवासी-म.नं. 201, रोशन बाग, महामाई का मंदिर के पास, महामाई का बाग, हुजुर, भोपाल (म.प्र.).

मेरा आधार कार्ड में मेरा नाम ध्रुव कुमार सोनी (Dhruv Kumar Soni) अंकित है जो कि पूर्णतः गलत है, मेरा सही नाम महेंद्र सोनी (MAHENDRA SONI) है, मुझे उसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

(G-902)

भवदीय  
(महेन्द्र सोनी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड नंबर में 5769 2473 7203 जिसमें त्रुटिवश मेरा नाम विक्रम शर्मा पिता कमलेश शर्मा अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम यशवंत शर्मा पिता कमलेश शर्मा है. अतः मुझे मेरे सही नाम यशवंत शर्मा पिता कमलेश शर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(विक्रम शर्मा)

नया नाम  
(यशवंत शर्मा)  
S/o कमलेश शर्मा  
पता-542/7, नेहरू नगर, इंदौर

(G-903)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that my old name was N. Induchhodan- P. Narayanan Nair, address H.No. 44/S-3, Manas Apartment Old Ashoka Garden, Bhopal (M.P.) Now my name is changed to N. Induchoodan.

So in Future I shall be called as N. Induchoodan S/o. P. Narayanan Nair.

Old Name  
(N. Induchhodan- P. Narayanan Nair)

New Name  
(N. Induchoodan)

(G-904)



### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती काजल चेतवानी पति शंकर चेतवानी वर्तमान पता-420/2, महाकौशल नगर, मंटा डेरी के पीछे, अधारताल, जिला जबलपुर.

यह कि मेरा विवाह के पूर्व नाम दीप्ति हरचंदानी पता-शांति नगर, दमोहनाका, जबलपुर (म.प्र.) था. यह कि मेरा विवाह 4-6-2012 को शंकर चेतवानी के साथ संपन्न हुआ था. विवाह के पश्चात् मेरा नाम काजल चेतवानी हो गया है. अतः अब से भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मुझे काजल चेतवानी के नाम से लिखा व पढ़ा जाए.

पुराना नाम  
(दीप्ति चंदानी)

नया नाम  
(काजल चेतवानी)

(G-905)

### नाम परिवर्तन

मैं, पुनीत माता अनीता धोटे पति रमेश धोटे निवासी-ग्राम बालनेर, पोस्ट विजयग्राम, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल मेरा पुत्र है उसकी मार्कशीट, टीसी एवं अन्य दस्तावेजों में पुनीत सुपुत्र रमेश धोटे एवं माता का नाम रेखा धोटे लिखा गया है जबकि मेरे सभी स्कूल दस्तावेज में मेरा नाम अनीता धोटे दर्ज है ऐसे में मेरे पुत्र पुनीत की मार्कशीट एवं टी.सी. अन्य दस्तावेजों में माता का नाम अनीता धोटे पढ़ा एवं जाना जाये.

पुराना नाम  
(रेखा धोटे)

नया नाम  
(अनीता धोटे)

(G-906)

### नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णा बाई यादव पत्नी स्व. श्री घनश्याम यादव, निवासी वार्ड नंबर 31, लखन किराना सिवनी नाका, ग्वालटोली, होशंगाबाद नर्मदापुरम विवाह के पश्चात् मेरा नाम भूरी बाई से कृष्णा बाई यादव परिवर्तित ही गया है, जो सही एवं सत्य है.

(G-907)

भवदीय  
(कृष्णा बाई यादव)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्री आयुष मेहरा आत्मज श्री पुरुषोत्तम मेहरा, आयु वयस्क, निवासी-म.नं. 05, खुशीपुरा, चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) मेरा नाम पूर्व में घरवालों ने मुंह बोला नाम ओम मेहरा (OMMEHRA) रख दिया था. इसी नाम से ही मेरा आधार कार्ड भी बनवा दिया था. वर्तमान में मैं, अपना नाम जो अंक सूची में मैं व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है आयुष मेहरा (AAYUSH MEHRA) करना चाहता हूँ भविष्य में मुझे आयुष मेहरा (AAYUSH MEHRA) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. आज के बाद से

मैं अपने आधार कार्ड व सभी शासकीय व अशासकीय, बैंक व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम आयुष मेहरा (AAYUSH MEHRA) दर्ज कर इसी नाम से कार्य करूंगा व जाना-पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम  
(ओम मेहरा)

नया नाम  
(आयुष मेहरा)

(G-908)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा पुराना नाम के. एस. मणि पुत्र श्री मुथु काशीराम आयु 52 वर्ष निवासी क्वार्टर नं. 777, एन/2, बी-सेक्टर गोविन्दपुरा, भोपाल था. अब मैंने अपना नाम के. एस. मणि से परिवर्तित कर नया नाम काशीराम शुभम मणि पुत्र श्री मुथु काशीराम (Kashiram Shubham Mani S/o Muthu Kashiram) कर लिया है. अब मुझे मेरे नये नाम काशीराम शुभम मणि पुत्र मुथु काशीराम (Kashiram Shubham Mani S/o Muthu Kashiram) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(के. एस. मणि)

नया नाम  
(काशीराम शुभम मणि पुत्र श्री मुथु काशीराम)  
(Kashiram Shubham Mani S/o Muthu Kashiram)

निवासी-क्वार्टर नं. 777, एन/2, बी-सेक्टर,  
गोविन्दपुरा, भोपाल.

(G-909)

### नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश विश्वकर्मा आ० श्री कैलाश, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी-85, दौलतपुरा, कोकता, हुजूर, भोपाल (म.प्र.) का होकर शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे सर्विस रिकार्ड व सर्विस खाते से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम मुकेश आ० कैलाश विश्वकर्मा अंकित हो गया है जबकि मेरे पैन कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, आदि में मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा आ० कैलाश अंकित है.

अतः उक्त कारण से मेरे सर्विस रिकार्ड एवं सर्विस खाते से संबंधित दस्तावेजों में भी मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा आ० कैलाश अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(मुकेश)  
आ० कैलाश विश्वकर्मा

नया नाम  
(मुकेश विश्वकर्मा)  
आ० कैलाश

(G-910)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम व मेरे सभी दस्तावेजों में बलराम (BALRAM) दर्ज था जो कि अब बदल कर बलराम सिंह रघुवंशी (BALRAM SINGH RAGHUWANSHI) हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(बलराम)  
(BALRAM)

(G-911)

नया नाम  
(बलराम सिंह रघुवंशी)  
(BALRAM SINGH RAGHUWANSHI)

पता—मकान नं. 112, स्क्रीम नं. 155,  
51, पुलिस चौकी के पास, इंदौर.

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम SOURABH दर्ज है एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सरनेम SOURABH RAI दर्ज है.

यह कि SOURABH एवं SOURABH RAI दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः भविष्य में मुझे SOURABH RAI से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(सौरभ)  
(SOURABH)

(G-912)

नया नाम  
(सौरभ राय)  
(SOURABH RAI)

साईनाथ कॉलोनी, सेगाव पोस्ट, तह. सेगाव,  
जिला खरगौन, (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बिमलेश सिंह तनय श्री मुन्नीलाल सिंह, ग्राम निमगहना, पोस्ट ऊंची औनी, तहसील जवा, जिला—रीवा (म0प्र0).

यह कि मैंने राजपत्र क्र. 51, 23-12-2022 को प्रकाशन क्र. G-2154 में कराया था जिसमें मेरा त्रुटिवश नाम बिमलेश सिंह की जगह बिमलेश कुमार सिंह प्रकाशित हो गया था जो कि गलत है मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड नम्बर 2377 9684 0196 में बिमलेश सिंह अंकित है. मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(बिमलेश कुमार सिंह)

(G-913)

नया नाम  
(बिमलेश सिंह)

**आम सूचना  
संशोधित**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ए बी इन्टरप्राइजेज ए.1/ए, द्वारिकापुरी, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00210/11, दिनांक 21-11-2011 में पंजीकृत है. जिसमें दिनांक 20-1-2023 को (1) श्री नयन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी-ए.1/ए, द्वारिकापुरी, ग्वालियर (म.प्र.) (2) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल, निवासी-संगम अर्पाटमेंट, माधव नगर, लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 20-1-2023 को (1) भूपेंद्र सिंह तोमर पुत्र अरुण कुमार सिंह तोमर, निवासी-415, तानसेन नगर, ग्वालियर (2) विजय डंडोटिया पुत्र वृन्दावन, निवासी-16/340, मिल एरिया रोड, दत्तपुरा, मुरैना (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मेसर्स ए बी इन्टरप्राइजेज  
(भूपेंद्र सिंह तोमर)

भागीदार

ए.1/ए, द्वारिकापुरी, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-914)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। हमारी फर्म में मेघा मिनरल (M/s. MEGHA MINERALS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 30-09-2022 से एक भागीदार (1) श्री आशीष पिता विनायक पाटिल, निवासी-गुरुकृपा सोसायटी, अम्बेडकर नगर, त्रिशारन चौक, कुन्जीलाल पेठ, रामेश्वरी रोड, नागपुर, तह. एवं जिला नागपुर (महा.) निकल रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 30-09-2022 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 278, विलेज लोहनी, सौसर, तह. सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

M/s. MEGHA MINERALS

(उदय कुमार)

पार्टनर

(G-915)

**नाम परिवर्तन**

मैं, गफफार पटेल पिता श्री दाऊद पटेल, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम गफफार पटेल पुत्र श्री दाऊद पटेल है, जो कि मेरे राशन कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, आधार कार्ड तथा मेरी कृषि भूमि इत्यादि में लिखा गया है, उस संबंधित दस्तावेजों में लिपिकीय त्रुटिवश मेरा नाम गफूर खॉं पिता दाउद खॉं लिखा हुआ है, जिसमें मेरा नाम गफूर खॉं पिता श्री दाउद खॉं की के स्थान पर मेरा सही नाम गफफार पटेल पुत्र श्री दाऊद पटेल लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम

(गफूर खॉं)

पुत्र दाउद खॉं

नया नाम

(गफफार पटेल)

पिता श्री दाऊद पटेल

पता-671, पटेल मोहल्ला, खजराना,

इंदौर (म.प्र.)

(G-916)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा पुराना नाम आरती नागले पुत्री श्री राजू नागले, आयु 25 वर्ष, निवासी-मकान नं. 47, ए-सेक्टर, ओम नगर, कोलार रोड, भोपाल था. अब, मैंने अपना नाम आरती से परिवर्तित कर नया नाम आयशा कर लिया है. अब मुझे मेरे नये नाम आयशा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे. मैं, आज दिनांक से सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में अपना नया नाम आयशा दर्ज कराना चाहती हूँ.

पुराना नाम  
(आरती नागले)  
पुत्री श्री राजू नागले

नया नाम  
(आयशा)  
पुत्री श्री राजू नागले  
निवासी-मकान नं. 47, ए-सेक्टर,  
ओम नगर, कोलार रोड, भोपाल.

(G-917)

**उपनाम परिवर्तन**

मैं, महेश प्रसाद चौधरी आत्मज स्व. श्री फूलसिंह चौधरी, आयु 53 वर्ष, निवासी-म. नं. 1450/350/1, गंगा नगर, चंदन कॉलोनी, गढ़ा वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) का निवासी हूँ. सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर मलैया रख लिया है तथा भविष्य में मुझे मेरे नये अंगीकृत नाम/उपनाम महेश प्रसाद मलैया के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए एवं शासकीय रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजों में सुधार किया जाए तथा मुझे मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों के शासकीय दस्तावेजों में महेश प्रसाद मलैया के नाम से लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(महेश प्रसाद चौधरी)

नया नाम  
(महेश प्रसाद मलैया)

(G-918)

**उपनाम परिवर्तन**

मैं, सुनील कुमार विश्वकर्मा आत्मज स्व. श्री मदन गोपाल विश्वकर्मा, आयु 50 वर्ष, निवासी-म.नं. 306, आर.सी. कॉम्प्लेक्स, चेरीताल, जबलपुर (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर शर्मा रख लिया है तथा भविष्य में मुझे मेरे नये अंगीकृत नाम/उपनाम सुनील कुमार शर्मा के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए एवं शासकीय रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजों में सुधार किया जाए तथा मुझे मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों के शासकीय दस्तावेजों में सुनील कुमार शर्मा के नाम से लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(सुनील कुमार विश्वकर्मा)

नया नाम  
(सुनील कुमार शर्मा)

(G-919)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 63(1) के अधीन, यह सूचना दी जाती है कि हमारी उक्त भागीदारी फर्म में से, साझेदार श्रीमती रेनू पाण्डेय ने अपने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 7-8-2021 से सेवानिवृत्ति की इच्छा व्यक्त की है। श्रीमती रेनू पाण्डेय के व्यक्तिगत कारणों से यह संशोधन दिनांक 16-2-2023 को स्टाम्प पेपर पे अंकित / टंकित किया गया है। अतः उक्त फर्म से श्रीमती रेनू पाण्डेय दिनांक 7-8-2021 निकल रही हैं, फर्म में साझेदार क्रमांक 1. श्री मनोज सिंह चौहान 2. श्रीमती इंदु बिसेन एवं 3. श्री सुरेश चंदानी फर्म में यथावत् रहेंगे। अतः सर्वसाधारण को उक्त वर्णित पार्टनरशिप फर्म की संरचना में परिवर्तन के संबंध में सूचित किया जाता है। दिनांक 10 मई 2023 भोपाल.

#### भवदीय

(G-920)

मेसर्स बालाजी ए.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपर्स  
(मनोज सिंह चौहान)

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम Aishanya Khare D/o Sameer Khare है, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, आदि समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैं, अपना नाम बदलकर Khushi Khare रख रही हूँ। अतः भविष्य में मुझे Aishanya Khare के स्थान पर मेरे नये नाम Khushi Khare D/o Sameer Khare से जाना, पहचाना एवं उपयोग किया जावे एवं सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरा नया नाम दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(Aishanya Khare)

नया नाम

(Khushi Khare)

D/o Sameer Khare

R/o Khare Niwas, Awa Maharaj Ki Gali,  
Dal Bazar, Lashkar, Gwalior (M.P.)

(G-921)

#### CHANGE OF NAME

I, Mrs. Rashmi Premchandani W/o Mr. Mahesh Premchandani R/o F-7/7, F Ward, Swami Leelashah Colony, Bairagarh, Bhopal (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Asha D/o Mr. Hargun Das Badlani. I got married according to Hindu customs on dt. 15-4-1992 with Mr. Mahesh Premchandani & After Marriage my name has been changed as Mrs. Rashmi Premchandani W/o Mr. Mahesh Premchandani, after marriage I known as Mrs. Rashmi Premchandani W/o Mr. Mahesh Premchandani for all purpose on every records.

Old Name

(Asha)

New Name

(Rashmi Premchandani)

Resident of F-7/7, F Ward, Swami  
Leelashah Colony, Bairagarh, Bhopal (M.P.)

(G-922)

**नाम परिवर्तन**

मैं, दीपा वीधानी पुत्री श्री अशोक कुमार वीधानी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह श्री संदीप लालवानी पुत्र तुलसीदास लालवानी से हुआ था. विवाह पश्चात, मेरा नाम कशिश लालवानी हो गया था. यह कि मेरा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हो गया है. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे विवाह पूर्व नाम दीपा वीधानी पुत्री श्री अशोक कुमार वीधानी से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम  
(कशिश लालवानी)

(G-923)

नया नाम  
(दीपा वीधानी)  
निवासी-मकान नं. 55, सावन नगर,  
हलालपुर, भोपाल (म.प्र.).

**PUBLIC NOTICE**  
**NOTICE U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

NOTICE is hereby given for public information that following changes in the constitution of SAMANVAYA CONSTRUCTIONS (Reg no. 07/34/03/0096/18 dated 18/12/2018) having its principal place of office at Near Bank of Baroda ATM, Opp. Parda Complex, Mandsaur Road, Manasa 458110, M.P.

SAMANVAYA CONSTRUCTIONS was having three partners and out of which one partner namely Porwal infrastructures private limited has voluntarily retire as a partner from the said partnership firm w.e.f. 08/05/2023.

Now, (1). Ashok kumar gulati s/o kashi ram gulati, (2). Arpit gulati s/o Ashok kumar gulati are the continuing partners of the firm.

For SAMANVAYA Constructions,  
(Arpit Gulati)  
Partner.

(G-924)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम हिमांशु स्वामी आ० श्री आर स्वामी (राजेन्द्र स्वामी) है। मेरी माता का प्रथम विवाह श्री आर स्वामी (राजेन्द्र स्वामी) के साथ हुआ था। इस कारण मेरी सभी अंकसूचियों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम हिमांशु स्वामी अंकित है। मेरी माता का मेरे जैविक पिता श्री आर स्वामी (राजेन्द्र स्वामी) न्यायालय के माध्यम से तलाक हो चुका है। तलाक के उपरांत मेरी माता ने श्री प्रशांत सिंह से दूसरा विवाह किया है। इस कारण अब मैंने अपना नाम हिमांशु स्वामी से परिवर्तित कर हिमांशु सिंह आ० श्री प्रशांत सिंह कर लिया है। अब मुझे

हिमांशु स्वामी आ० श्री आर स्वामी (राजेन्द्र स्वामी) के स्थान पर हिमांशु सिंह आ० श्री प्रशांत सिंह निवासी-एम.आई.जी 345, अरविन्द विहार, लहारपुर रोड, बाग मुगलिया भोपाल (म.प्र.) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम  
(हिमांशु स्वामी)  
आ. श्री आर स्वामी

नया नाम  
(हिमांशु सिंह)  
आ. श्री प्रशांत सिंह  
पता-एम.आई.जी. 345, अरविन्द विहार,  
लहारपुर रोड, बाग मुगलिया, भोपाल.

(G-925)

#### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरा नाम शादी के पहले के दस्तावेजों में नलीनी कमलाकर डहाले (Nalini D/o Kamlakar Dahale) अंकित है जबकि शादी के बाद मेरा नाम बदलकर वैशाली गन्धे पति सुभाष गन्धे (Vaishali Gandhe W/o Subhash Gandhe) हो गया है तथा उपरोक्त दोनों नाम नलीनी कमलाकर डहाले एवं वैशाली गन्धे पति सुभाष गन्धे एक ही महिला अर्थात् मेरे ही नाम है।

त्रुटि वश एक डॉक्यूमेंट में मेरा नाम नलीनी सुभाष गन्धे अंकित हो गया है जो की मुझ वैशाली गन्धे का ही पुराना नाम है।

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम वैशाली गन्धे पति सुभाष गन्धे (Vaishali Gandhe W/o Subhash Gandhe) से ही जाना पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो।

पुराना नाम  
(नलीनी कमलाकर डहाले)

नया नाम  
(वैशाली गन्धे)  
निवासी-बी-1304, शहनाई रेसीडेंसी,  
ए. बी. रोड, इंदौर.

(G-926)

#### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरी पुत्री का पुराने दस्तावेजों में बोलता नाम सुनीता तंबोली था जो की उसका बोलता नाम था जबकि उसका वास्तविक नाम श्रेया तम्बोली पिता सोमनाथ तम्बोली है (Shreya Tamboli D/o Somnath Tamboli) है तथा उपरोक्त दोनों नाम सुनीता तंबोली एवं श्रेया तम्बोली एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री के ही नाम है।



अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम श्रेया तम्बोली पिता सोमनाथ तम्बोली है (Shreya Tamboli D/o Somnath Tamboli) से ही जाना पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो।

पुराना नाम  
(सुनीता तंबोली)

(G-927)

नया नाम  
(श्रेया तम्बोली)  
निवासी-23, लक्ष्मी विहार कॉलोनी,  
गवली पलासिया, इंदौर.

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फ़र्म - कृष्णा ऐग्रो वेयरहाउस, पता - ग्राम - बुजुर्ग , डबरा जिला - ग्वालियर (म.प्र.) । जिसका पंजीयन क्रमांक - 02/42/02/00096/13 दिनांक 12-09-2013 है । जिसमें 31-03-2023 तक दो भागीदार श्रीमती पदमा हबलानी पत्नी श्री जयपाल दास हबलानी एवं पूजा देवी हबलानी पत्नी श्री घनश्याम दास हबलानी भागीदार हैं । आपसी सहमति से दिनांक 01-04-2023 से तीसरी भागीदार श्रीमती शारदा हबलानी पत्नी श्री महेश कुमार हबलानी को नवीन भागीदार के रूप में शामिल किया गया है । सर्वजन एवं आमजन सूचित हों ।

फर्म कृष्णा ऐग्रो वेयर हाउस  
(श्रीमती पदमा हबलानी)

भागीदार

(श्रीमती पूजा देवी हबलानी)

भागीदार

(G-928)

ग्राम बुजुर्ग, डबरा, जिला ग्वालियर.

**RESOLUTION PASSED AT THE MEETING OF PARTNERS OF M/s KMC BUILDTECH HELD ON 10<sup>TH</sup> NOVEMBER 2022 at the registered office of the firm**

### AGENDA- Retirement & Addition of Partner

It was informed that the following persons have given their intention to retire as partner in the Partnership Firm w.e.f. 17.11.2022 :

1. Smt. Kalawati Gurjar
2. Shri Lal Singh Gurjar
3. Shri Kiledar Singh Gurjar
4. Shri Bhoop Singh Gurjar
5. Shri Satendra Singh Gurjar
6. Smt. Meera Bai Gurjar

and an amendment in the partnership deed is required and necessary formalities need to be undertaken to amend the registration certification of the partnership firm. Hence after a brief discussion, it was unanimously resolved that:

The above be retired as Partners of the firm w.e.f. 17.11.2022 after the aforesaid alteration the partners are namely:

1. Mature Realestate LLP
2. Growth Realestate LLP

Partners of the firm are hereby authorized to execute relevant deed in order to make the aforesaid alteration effective and file all the relevant documents and forms in the office of The Registrar of Firms and Societies related to the change in composition and are also authorized to publish a notice in newspaper and official Gazette of M.P. and to do all other deeds and things necessary to give effect to the above.

For M/s KMC Buildtech,  
For Growth Realestate LLP  
(Kartikey Goyal)  
Partner.

(G-929)

#### CHANGE OF NAME

I, Mrs. Megha Babani W/O Mr. Amit Babani R/O B-14, Lakecity Enclave, Near Phatak Road, Bairagarh, Bhopal (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Yashoda Hotwani D/o Mr. Roop Chand Ji Hotwani. I got married according to Hindu customs on dt. 26th November 2007 with Mr. Amit Babani & After Marriage my name has been changed as Mrs. Megha Babani W/o Mr. Amit Babani, after marriage I known as Mrs. Megha Babani W/o Mr. Amit Babani for all purposes on every records.

Old Name  
(Yashoda Hotwani)

New Name  
(Megha Babani)  
Resident of B-14, Lakecity Enclave,  
Near Phatak Road, Bairagarh, Bhopal.

(G-930)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विनोद सिंह राजपूत पुत्र श्री ओमप्रकाश था, मेरे सभी शासकीय एवम अर्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम

विनोद सिंह राजपूत है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर विनोद शर्मा कर लिया है, अतः अब मुझे विनोद शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम	नया नाम
विनोद सिंह राजपूत	विनोद शर्मा
(G-931)	पता-752, सेक्टर नम्बर-3 न्यू बस्ती हनुमान मंदिर गांधी नगर, भोपाल म0प्र0

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर पुत्र श्री आजाद सिंह ठाकुर था, मेरे सभी शासकीय एवम अर्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर अर्जुन सिंह ठाकुर कर लिया है, अतः अब मुझे अर्जुन सिंह ठाकुर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम	नया नाम
नरेंद्र सिंह ठाकुर	अर्जुन सिंह ठाकुर
(G-932)	पता-मकान नं-8, श्रीनगर, कॉलोनी बैरसिया रोड, निशातपुरा, करोद, भोपाल म0प्र0

नाम परिवर्तन

मैं रामबाबू अहिरवार आ0 कैलाश अहिरवार, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी-295, कान्हा सैया, नजदीक ट्रांसपोर्ट नगर, आनंद नगर, भोपाल (म0प्र0) का होकर शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे सर्विस रिकार्ड व सर्विस खाते से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम रामबाबू आ0 कैलाश अहिरवार, अंकित हो गया है जबकि मेरे पैन कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, आदि में मेरा नाम रामबाबू अहिरवार आ0 कैलाश अहिरवार, अंकित है।

अतः उक्त कारण से मेरे सर्विस रिकार्ड एवं सर्विस खाते से संबंधित दस्तावेजों में भी मेरा नाम रामबाबू अहिरवार आ० कैलाश अहिरवार, अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

(रामबाबू आ. कैलाश अहिरवार)

(G-933)

नया नाम

(रामबाबू अहिरवार आ. कैलाश अहिरवार)

नाम परिवर्तन

मैं अपूर्व कुमार बिस्वास द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का बचपन का नाम आदित्य बिस्वास था मेरे द्वारा अपने पुत्र का नाम बदलकर नया नाम हीरव बिस्वास रख लिया गया है, जो कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड, अंकसूची दस्तावेजों में पुराना नाम दर्ज है। प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय एवं अद्विशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नवीन नाम हीरव बिस्वास अंकित किया जावे।

अपूर्व कुमार बिस्वास

(G-934)

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2023—ज्येष्ठ 5, शक 1945

## भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )